

CORDS CABLE INDUSTRIES LTD.

REGD. OFFICE: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg, Near Okhla Industrial Area Phase-III; Old Ishwar Nagar, New Delhi - 110020

Tel: +91-11-40551200 ; Fax : +91-11-40551281

Website: www.cordscable.com; Email: ccil@cordscable.com

CIN: L74999DL1991PLC046092

Date: 23.03.2022

Listing Department (Compliance Cell),

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

Plot no. C/1, G Block,

Bandra Kurla Complex,

Bandra (E),

Mumbai- 400 051

Symbol: CORDSCABLE

Listing Department (Compliance Cell),

Bombay Stock Exchange Ltd.

Floor 25, PJ Towers,

Dalal Street,

Mumbai- 400 001

Symbol: 532941

Sub.: SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 - Closure of Trading Window.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015, as amended, please find enclosed herewith copy of newspaper publication regarding intimation of closure of trading window from Friday, April 01, 2022 till 48 hours after the audited financial results for the 4th quarter / Financial Year ended on March 31, 2022 is made public.

Kindly take the same on records

Thanking you.

Yours faithfully,

For fords Cable Industries Limited

Garima Pant

(Company Secretary)

FINANCIAL EXPRESS

	continue from the previous page			-
Lot No.		Description of the Immovable Properties Mortgaged/ Owner's Name (mortgagers of property(ies))	A) Dt. Of Demand Notice u/s 13(2) of SARFESI ACT 2002 B) Outstanding Amount as on C) Possession Date u/s 13(4) of SARFESI ACT 2002 D) Nature of Possession Symbolic/Physical/Constructive	(E) Reserve Price (F) EMD (last date of deposit of EMD) (G) Bid Increase Amount
		Auction Date: 29.04.2022, Time	T1:00 AM to 04:00 PM:	
25.	PNB Civil Lines, Aligarh Tabish Anzar SO Anzarul Haque	Residential property in the name of Tabish Anzar SO Anzarul Haque situated at flat no A-5, Second Floor, Barkat Apartment, Phase Two, Khasra no 43 & 44, Hamdard Nagar, Mauza Jamalpur, AMU, Aligarh having area 118.45 sqmt. (MSTC Property ID: PUNBTABISHANZARUL)	(B) Rs. 45,80,379.48/- (In words Rupees Forty Five lakh Eighty thousand Three Hundred Seventy	(E) Rs 32,50,000 (F) Rs 3,25,700 (28.04.2022) (G) Rs.10,000
26.	PNB Civil Lines, Aligarh Himanshu Varshney SO Narendra Kumar Varshney	Residential property in the name of Himanshu Varshney SO Narendra Kumar Varshney situated at 8/160, Mohalla Raghubirpuri, Near Masoodabad Bus Stand, GT Road, Aligarh having area 90.28 sqmt. (MSTC Property ID: PUNBHIMANSHUNAREN)		(E) Rs 27,00,000 (F) Rs 2,70,000 (28.04.2022) (G) Rs.10,000
27.	PNB Goverdhan Road Mathura Vinod Kumar SO Pratap Singh	Property in the name of Vimlesh Devi Wo Pratap Singh situated at khasra no 7 & New Khasra no 14, Shreepatipuram, Balajipuram, Aurangabad, Mauza Tantura, Mathura, having area 41.80 sqmt. (MSTC Property ID: PUNBVINODPRATAP)	(B) Rs. 11,06,440.62/- (In words Rupees Eleven lakh Six thousand Four Hundred Forty and Paisa Sixty Two only) with further Interest w.e.f. 01.09.2021 and other expenses. (C) 18.09.2021 (D) Symbolic	(E) Rs 10,29,000 (F) Rs 1,02,900 (28.04.2022) (G) Rs.10,000
28.	PNB Ramghar Road(eUBI), Aligarh M/S Amit Traders	Residential property in the name of Bhagwan Singh situated at khasra no 122, RAF Road, Near St Johns Academy, Talaspur Kalan, pargana & Tehsil Koil, Aligarh, having area 255.82 sqmt. (MSTC Property ID: PUNBAMITTRADERS)		(E) Rs 82,00,000 (F) Rs 8,20,000 (28.04.2022) (G) Rs.10,000

The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions:

- The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS"
- The particulars of Secured Assets specified in the Schedule herein above have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation.
- The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https://www.mstcecommerce.com on that is mentioned against properties AT FROM: 11:00 AM to 04:00 PM
- For detailed term and conditions of the sale, please refer www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app

DATE: 22.03.2022, PLACE: ALIGARH

FEDERAL BANK

YOUR PERFECT BANKING PARTNER LCRD Division / New Delhi, U.G.F., Federal Towers, 2/2, West Patel Nagar, New Delhi-110008 Ph No.011-40733980, 40733978 Email: ndllcrd@federalbank.co.in CIN: L65191KL1931PLC000368 Website: www.federalbank.co.in

NOTICE U/S 13(2) OF SARFAESI ACT 2002, (hereinafter referred to as Act) r/w Rule 3(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002. (1) Mrs. Surbhi W/o Shri Hani Kumar Agrawal

(2) Mr.Hani Kumar Agrawal S/o Shri Subash Chndra Agrawal, both residing a Ward 17, H.NO.116, Mohalla Kanoon Goyan Luhaar Street, Kashipur, Udham Singh Nagar, Kashipur, Uttarakhand-244713.

Also at: Flat No.A-903, 8th Floor, Block-A, SCC Sapphire Group Housing, Raj Naga Extn., Village Noor Nagar, Pargana Loni, District and Tehsil Ghaziabad, U.P. Also at: H.No.434 A, Tanda Ujjain Kavi Nagar, Gautam Nagar, Ward No.05, Kashipur,

Udham Singh Nagar, Uttarakhand-244713. The 1" of you as principal borrower and 2" of you as guarantors/co-obligants / coborrowers borrowed from our Bank's New Delhi/Karol Bagh branch credit facility is Housing Loan of Rs.34,00,000/- (Rs.Thirty Four Lakh Only) on 07,02,2020 after

executing necessary security agreements / loan documents in favour of the Bank. Towards the security of the aforesaid credit facilities availed from the Bank, Mrs. Surbhi and Mr.Hani Kumar Agrawal have created security interest in favour of the Bank by way of mortgage on 08.09.2020 in respect of the following

immovable properties. DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY

All that piece and parcel of Residential Unit/Flat No.A-903 on 8" Floor, Block-Ain SCC

Sapphire Group Housing Project of Shrine Buildtech Pvt Ltd & SCC Builders Pvt Ltd having total area of 1515 Sq Ft (i.e. 140.75 S q Mtrs) and Carpet area 888.78 Sq F (i.e. 82.57 Sq Mtr) built on a part of free hold residential land situated at Raj Naga Extn., Ghaziabad at Khasra No.1010,1011 & 1012 of Village Noor Nagar, Pargana Loni, Tehsil & Dist.Ghaziabad, UP in the Group Housing Project known as SCC Sapphire bounded on the East by Passage, West by Open, North by Flat No.902 and South by Flat No.904.

The aforesaid hypothecated / mortgaged properties hereinafter referred to as 'the

secured assets'. The undersigned being Authorised Officer of the Federal Bank Ltd. hereby inform you that a sum of ₹ 35,31,368/- (Rupees Thirty Five Lakh Thirty One Thousand Three Hundred and Sixty Eight Only) is due from you jointly and severally as on 15.03.2022 under your Housing loan account 13827300002210 with Karol bagh branch of the Bank.In view of the default in repayment, your loan account/s is/are classified as Non-Performing Asset on 10.03.2022, as per the guideline of RBI. You are hereby called upon to pay the said amount with further interest @ 7.40 % per annun with monthly rests plus penal interest @2% pa with monthly rests from 11.03.2022 ti the date of payment and costs within 60 days from the date of this notice, failing which the Bank will exercise all the powers under section 13 of the Act against you and the above mentioned secured assets such as taking possession thereof including the right to transfer them by way of lease, assignment or sale, or taking over the management of the secured assets for realising the dues without any further notice to you. It is informed that, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise any of the above mentioned secured assets without the Bank's written consent. In the event of you failure to discharge your liability and the bank initiates remedial actions as stated above you shall further be liable to pay to the bank all cost, charges and expenses incurred in that connection. In case the dues are not fully satisfied with the sale proceeds of the secured assets, the bank shall proceed against you personally for the recovery of the balance amount without further notice. Your attention is also invited to the provisions o section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets (security properties). This notice is issued without prejudice to the other rights and remedies available to the bank for recovering its dues. This notice was issued on 15" Day of March 2022 and the same was served on you but seems not received by you which necessitated this publication as per the SARFAESI Act.

Dated this the 23th Day of March 2022

Name of the

For The Federal Bank Ltd., Deputy Vice President (Authorised Office under SARFAESI Act)

Canara Bank ■ Branch: Palwal II. Opposite Saraswati Mahila College, G.T. Road, Palwal (121102) Haryana Syndicate Bank

POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)] (For Immovable property) Whereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 15/10/2021 calling upon the borrower Sri.Vishal Tewatiya to repay the amount mentioned in the notice, being Rs.995000 (Rupees Nine Lakh Ninety Five thousand Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this 17th day of March of the year 2022. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of Rs.995000 (Rupees Nine Lakh Ninety Five thousand Only) and

The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

All that part and parcel of the property consisting of Flat No./Plot No. _Mutation No. 2925, Extent of 17/17th share in the Khewat/ Khatoni No. 115/120, Rect No. 5, killa No. 17(3-11) share of owner is 17 Marla, Fazalpur Naya Gaon, The Palwal in Sy. No./City or Town Survey No./Khasra No. Teh. palwal with in the registration sub-district Palwal and district Palwal Bounded: On the **North by** : Gali On the **South by** : Another Property On the **East by** : Road On the **West by** : Vacant Plot

Date: 23-03-2022 Place: Faridabad Authorised Officer, Canara Bank

CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED Regd. Off.: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg, Near Okhla Industrial Area

Phase-III, Old Ishwar Nagar, New Delhi-20, Tel: 011-40551200 *Fax No.011-40551280/81 *Website: www.cordscable.com, E-mail: ccil@cordscable.com *CIN L74999DL1991PLC046092

NOTICE

Pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and Company's Code for prevention of Insider Trading, the Trading window for dealing in the Securities of the Company shall remain closed from Friday, April 01, 2022 for the Directors, Designated Employees, Insiders and their immediate relatives till 48 hours after the audited Financial Results for the 4th quarter / Financial Year ended on March 31, 2022 is made public.

Accordingly, all designated persons, Directors, promoters, persons acting in concert, employees of the Company along with their respective immediate relatives, persons having contractual and fiduciary relation with the Company including but not limited to Auditors, accountancy firm, law firms, analysts, consultants, etc., assisting or advising the Company, shall not involve in any transaction for dealing/trading in the securities of the Company during the period when Trading Window is closed.

> By order of the Board of Directors For Cords Cable Industries Limited

Place: New Delhi Garima Pant Date: March 22, 2022

Company Secretary

which property could not be sold.)

Name of the

STATE BANK OF INDIA, Stressed Assets Recovery Branch – II (51521)

3rd & 4th floor, State Bank House, 18/4, Arya Smaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110 005, Tel.011-28752163 Fax. 28755674, e-mail : sbi.51521@sbi.co.in

"APPENDIX-IV-A" {See proviso to rule 8 (6)} SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTIES

NOTICE FOR E-AUCTION DATED 26.04.2022

SALE OF IMMOVABLE ASSETS CHARGED TO THE BANK UNDER THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 read with proviso to rule 8 (6) of the security interest (Enforcement Rules, 2002).

The Authorized Officer of State Bank of India (Secured Creditor) has taken over possession (symbolic/physical) of the following property/ies u/s 13(4) of the SARFAESI Act. Public at large and borrowers, mortgagors and guarantors in particular are informed that e-Auction (under SARFAESI Act, 2002) of the charged property/ies in the below mentioned cases for realization of Bank's dues will be held on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" on 26.04.2022, for recovery of the amount mentioned below due to the Secured Creditor from the Borrowers, Guarantors and Mortgagors. The Reserve Price and earnest money to be deposited have been mentioned below.

Date / Time of visit to the property for inspection: 21.04.2022 from 11:00 am to 03:00 pm.

EMD of Reserve price to be transferred by bidders by means of challan generated on his / her / their bidder account maintained with M/s. MSTC Ltd on its e-auction site https://www.mstcecommerce.com by means of NEFT from Bidder's Bank, on or before 25.04.2022 up to 4:00 PM.

Date/time of E-auction on 26.04.2022 for 4 Hours from 11:00 am to 03:00 pm with unlimited extn. of 10 min each. Reserve Price (Rs.) (below

Description of property/ies

No.	Guarantor(s)	Which Proporty/Ioci		10% of the Reserve Price Bid Increment Amount	e Contact Person	
1	M/s Digital Integrated Technologies Pvt Ltd.	1 111011110001	1) Residential Building bearing Survey Number : block	₹ 26.00 Lacs	Sh. Sudhir Kumar	
		(as on	ID 4 cituated at flat 92 C 2nd floor LIG Udvog Viber	₹ 2.60 Lacs	Sinha	
	Smt. Kanika Anandani, Sh. Shailesh Anandani	mt. Kanika Anandani, h. Shailesh Anandani future interest and charges (Symbolic Possession with the Bank)	Anandani, Admeasuring Total Area : 54.87 sq. mtr.,	₹ 0.10 Lac	M-9999139990 Sh. Manoj Kumar Singh M-9816636723	
	M/s S 3 Synergy Pvt. Ltd,					
			₹ 4.17 Lacs	WI-9010030723		
			₹ 0.10 Lac			
			₹ 903.00 Lacs	1		
			₹ 90.30 Lacs			
			₹ 1.00 Lac	1		
Aci				tcecommerc		

auctionhome/ibapi/index.jsp by means of NEFT. EMD of Reserve price to be transferred by bidders by means of challan generated on his / her / their bidder account maintained with M/s. MSTC Ltd on its e-auction site https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ ibapi/index.jsp by means of NEFT from his / her / their bank, on or before 25.04.2022 up to 4:00 PM. For any assistance, please call MSTC HELPDESK Nos. 033-40602403, 033-40609118, 033-40645316 and/or Authorized Officer (Contact Person).

TERMS AND CONDITIONS OF THE E-AUCTION ARE AS UNDER

Date: 22-03-2022, Place: New Delhi

financialem epar.in

Outstanding Dues

for Recovery of

1. E-Auction is being held on "AS IS WHERE IS" "AS IS WHAT IS" AND "WHATEVER THERE IS BASIS" and will be conducted "On Line". The auction will be conducted through the Bank's approved service provider MSTC E-Commerce at their web portal https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp 2. To the best of knowledge and information of the Authorized Officer there is no encumbrance on the property/ies, However the intending bidder should make their own independent

inquiries regarding the encumbrances, title of the property/ies put on auction and claims/rights/dues/affecting the property prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the Bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorised Officer shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues.

3. The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of the unsuccessful bidders shall be refunded. The Earnest money Deposit shall not bear any Interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price, immediately on acceptance of bid price by the Authorized Officer and the balance of the sale price on or before 15th day of the sale. Default in deposit of amount by the successful bidder would entail forfeiture of the whole money already deposited and property shall be put to the re-auction and the defaulting bidder shall have no claim/right in respect of property/amount.

4. For detailed terms and conditions of the sale please refer to the link at the Bank's Service provider's web portal https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi.index.jsp & at Bank's portal https://www.sbi.co.in STATUTORY SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT 2002

Authorized Officer, State Bank of India, SARB-II, Karol Bagh New Delhi (Branch Code 51521)

NOTICE

Assignment of not Readily Realisable asset under Insolvency and Bankruptcy

Code, 2016 read with Regulation 37A of IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016 In the matter of

UM LOHIA TWO WHEELERS PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) (Company under liquidation process vide Hon'ble NCLT order dated 11-06-2021,

Last Date to apply and submission of proposal: 28-03-2022 The transfer/assignment of asset will be done by the undersigned on "AS IS WHERE IS WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS".

Brief Description of Asset (NRRA):

Net off Value as per Audited Reserve Earnest **Particulars** financial Statements as at 31/03/2021 Price Money Deposit and after realization till date (Rs.) (Rs.) (EMD) (Rs.) Trade Receivables/ Debtors: 16085671 1230500 *Tooling, Tooling & Equipment: 23246707 351100 158000 Advance to Vendors: 4. Long term Loans & advances: 58495

3,93,90,873 1581600 *Tooling, Tooling & Equipment are not in the possession of the CD, but are in the possession of the vendors scattered across India and abroad. Any interested & eligible party may ask the undersigned for Process Information Documents

and submit their proposal along with the earnest money deposit in the "LIQUIDATION

ACCOUNT of UMLOHIATWO WHEELERS PRIVATE LIMITED bearing No-50200059954498 maintaining with HDFC Bank, Okhla Phase-1, New Delhi, IFSC: HDFC0001385. The Earnest money and proposal can be withdrawn on or before 6 P.M of 30/03/2022 thereafter it shall be binding upon highest one. Satya Prakash

Date: 22.03.2022 Liquidator, M/s UM LOHIA TWO WHEELERS PVT. LTD. Place: New Delhi Registration No: IBBI/IPA-002/IP-N00906/2019-2020/12920 Address for Correspondence: B-277, Gali No- 14, Tomar Colony, Burari, Delhi- 84 E-mail ID : cirp.umlohia@gmail.com | Mobile No: 9910012590

E-AUCTION SALE NOTICE OF

ON DOT COURIER AND CARGO LIMITED (IN LIQUIDATION) (A company under liquidation process vide Hon'ble NCLT order dated May 24, 2021) Office of the company: Plot No.7, 2nd Floor, Block-2, Kirti Nagar Industrial Area, New Delhi-110015

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Last Date to apply and submission of Documents: 01st April, 2022 Date and Time of E-Auction: 3rd April, 2022 from 10.30 am to 5.30 pm (With unlimited extension of 5 minutes each) Sale of Assets and Properties owned by On Dot Courier and Cargo Limited (In Liquidation).

forming part of Liquidation Estate by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench ,New Delhi The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform https://www.eauctions.co.in

Basic Description of Assets and Properties for sale: Reserve Price (INR)/ Asset Location Address/Area (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016] Block No. EMD/Incremental amount Office Block on First Floor at Shop Number 129, Plot No.75, Rajpur 25.00 Lakhs / Dehradun Road, Dehradun. Admeasuring an 2.50 Lakhs / 50000 area of 256 square feet. UM AUTOCOMP PRIVATE LIMITED Office Block on First Floor in Building known as Zuco Complex. 22.00 Lakhs / Vishwakarma Chowk, Millerganj, 2.20 Lakhs / 50000 Ludhiana. Admeasuring an area of 1131 Square feet

Office Block in Shop Number

11/4B, Chander Nagar, Commercial

Complex, Plot No.4 A & 4

B,Ghaziabad. Admeasuring an area

of 215 Square Feet The terms and conditions of E-Auction and other details of properties are uploaded at the website i.e. http://www.eauctions.co.in

8.50 Lakhs /

1.00 Lakh / 25000

Any serious and interested buyer can check out and submit a bid for the same. Contact person on behalf of E-Auction Agency (Linkstar Infosys Private Limited): Mr. Dixit Prajapati, Email id- admin@eauctions.co.in, Mobile No.: +91 7874138237, Contact Number of Liquidator: Shyam Arora, Email id - arora.shyaam@yahoo.com, Mobile. No.: +9654102759 Date: 23rd March, 2022 Shyam Arora, Liquidator Place: New Delhi IBBI Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00546/2017-18/11703

Address of the Liquidator: 96, Aravali Apartment, Alaknanda, New Delh - 110019

E-AUCTION SALE NOTICE OF ON DOT COURIER AND CARGO LIMITED (IN LIQUIDATION) (A company under liquidation process vide Hon'ble NCLT order dated May 24, 2021) Office of the company: Plot No.7, 2nd Floor, Block-2,

Last Date to apply and submission of Documents: 01st April, 2022 Date and Time of E-Auction: 3rd April, 2022 from 10.30 am to 5.30 pm (With unlimited extension of 5 minutes each) Sale of Assets and Properties owned by On Dot Courier and Cargo Limited (In Liquidation) forming part of Liquidation Estate by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench, New Delhi

Kirti Nagar Industrial Area, New Delhi-110015

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform https://www.eauctions.co.in Basic Description of Assets and Properties for sale: Reserve Price (INR)/ Asset Location Address/Area

Block No. EMD/Incremental amoun Office Block on First Floor at Shop Number 129, Plot No.75, Rajpur 25.00 Lakhs / Dehradun Road, Dehradun. Admeasuring an 2.50 Lakhs / 50000 area of 256 square feet. Office Block on First Floor in Building known as Zuco Complex. 22.00 Lakhs / Vishwakarma Chowk, Millerganj, 2.20 Lakhs / 50000 Ludhiana. Admeasuring an area of 1131 Square feet Office Block in Shop Number 11/4B, Chander Nagar, Commercial 8.50 Lakhs / Complex, Plot No.4 A & 4 Ghaziabad 1.00 Lakh / 25000 B.Ghaziabad. Admeasuring an area of 215 Square Feet

website i.e. http://www.eauctions.co.in Any serious and interested buyer can check out and submit a bid for the same. Contact person on behalf of E-Auction Agency (Linkstar Infosys Private Limited): Mr. Dixit Prajapati, Email id- admin@eauctions.co.in, Mobile No.: +91 7874138237, Contact Number of Liquidator: Shyam Arora, Email id - arora, shyaam@yahoo.com, Mobile. No.: +9654102759 Date: 23rd March, 2022 Shyam Arora, Liquidator

The terms and conditions of E-Auction and other details of properties are uploaded at the

Place: New Delhi IBBI Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00546/2017-18/11703 Address of the Liquidator: 96, Aravali Apartment, Alaknanda, New Delh - 110019

पंजाब नैशन बौंक पिounjab national bank 🖢 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स 🚳 यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया SASTRA Divison, Head Office Sector-10 Dwarke, New Delh- 110075 Date: 29.12.2021 ORDER OF THE REVIEW COMMITTEE FOR DECLARATION OF THE WILFUL DEFAULTERS, PURSUANT TO PROCEEDINGS CONDUCTED

AT HEAD OFFICE ON 10.12.2021 A/c: M/s Tiles Emporium, (Rs. 9.98 Crore, CS: Agra/ ZS: Agra, Date of NPA: 31.03.2019) In terms of RBI Master Circular no. DBR. No. CID, BC.22/20.16.003/2015-16 dated July 01, 2015 Committee for Identification of Wilful Defaulters issued Show cause Notice dated 16.06.2021 to Following Persons mentioning the grounds on the basis of which they are identified as wilful

defaulter(s):-1. M/s Tiles Emprorium (Borrower)

Pankaj Kumar Singhal

3. Smt. Saroj Rani Mittal (Guarantor) 4. Shri Krishna Wanti (Guarantor)

Authorised Officer-Secured Creditor, PUNJAB NATIONAL BANK

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF

UM AUTOCOMP PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

principal office (if any) of Corporate Debtor Nehru Place, New Delhi-110019

Registrar of Companies,

NCT of Delhi & Haryana

U35999DL2016PTC304695

Order dated: 17.02.2022.

Received on: 21.03.2022

Pankaj Kumar Singhal

Registered Office: 806 Devika Tower, 6,

Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00532/2017-2018/1156

Ashok Vihar, Phase-IV, New Delhi-110052

A-233, Ground Floor, Bunkar Colony,

E-mail: aprassociatesllp@gmail.com

WP-509, 2nd Floor, Wazirpur Village,

E-mail: cirp.umautocomp@gmail.com

a) Web Link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

(b) Physical Address: WP-509, 2nd Floor, Wazirpur

Village, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052

Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052

4th April 2022

Classes of creditors, if any, under clause (b) of Based on limited information available.

Names of insolvency professionals identified Based on limited information available

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a

corporate insolvency resolution process of UM Autocomp Private Limited vide Order dated 17.02.2022.

The creditors of UM Autocomp Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of

Authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act

as Authorised representative of the class [specify class] in Form CA. (Based on limited information

The submission of claims is to be made in accordance with Chapter III of the Insolvency and Bankruptcy

Board of India (Insolvency Resolutions Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The claim with

The above-mentioned forms can be downloaded from the website www.ibbi.gov.in (Insolvency and

Interim Resolution Professional for UM Autocomp Private Limited

Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00532/2017-2018/11561

E-mail: cirp.umautocomp@gmail.com

proof is to be submitted in following specified forms along with documentary proof in support of claim:

Form F- for Claims by Creditors (Other than Financial Creditors and Operational Creditors)

before 04.04.2022 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

to act as authorised representative of creditors | there is no such class of creditors.

sub-section (6A) of section 21, ascertained by there is no such class of creditors.

Name of Corporate Debtor

is incorporated / registered

Authority under which Corporate Debtor

Corporate Identity No. / Limited Liability

Identification No. of Corporate Debtor

Address of the registered office and

Insolvency commencement date in

8. Name and Registration number of the

Address and e-mail to be used for

correspondence with the Interim

Last date for submission of claims

the Interim Resolution Professional

in a class (three names for each class)

available, there is no such class of creditors.)

Form C- for Claims by Financial Creditors

Bankruptcy Board of India).

Date: 22.03.2022

Place: Delhi

Form CA- for Claims by Financial Creditors in a class

Form D- for Claims by workmen or an employee

(b) Details of authorized representatives

submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Form B- for Claims by operational creditors except workmen and employees

Form E- for Claims by authorized representative of workmen & employees

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

insolvency professional acting as Interim

Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board

respect of Corporate Debtor

resolution process

Resolution Professional

Resolution Professional

are available at:

Date of incorporation of Corporate Debtor | 22/08/2016

5. Smt.Sashi Rani (Guarantor)

2. Shri Deepak Kalra (Proprietor)

6. Shri Rajan Bharara (Guarantor)

Vide Show Cause notice, the above -named persons were given opportunity to make a representation, if they so desire, to the Bank within 15 days from receipt of notice, as to why they not be classified as wilful defaulters. inspite of service of the said show cause notice(s), no reply/representation was made by the above persons. Thereafter, the identification Committee after due consideration of the facts on record, in its meeting held on 10.09.2021 had observed that the

above-named Persons had defaulted in payment/repayment obligations to the Bank and identified them as wilful defaulters on the Following Capacity to Pay:

As per CR of Guarantors, their net means is Sufficient to pay the Bank dues. Despite having sufficient net means and constant follow-up, the horrower/Guarantors are not renaving the bank dues, net means of guarantors are as under:.. CR dated S. no. Name Net Means

Smt. Saroj Rani Mittal Rs. 4.35 cr. 28.07.2017 2 Smt. Krishnawati Rs. 0.85 cr. 11.09.2017 3 Smt. Sashi Rani Rs. 0.45 cr. 11.09.2017 11.09.2017 Shri Rajan Bharara Rs. 0.43 cr

Diversion of Funds:

Primary security was not created from the funds availed from the Bank and instead the funds were diverted for other Purposes.

Accordingly, the Identification Committee had issued Order on 04.10.2021. In its said order, the committee had also directed that the above-named persons are free to make a written representation against the order of identification committee, within a period of 15 days from the date of receipt of order to the Review Committee headed by the MD & CEO of the Bank.

Despite service of the order of the Committee for Identification of wilful defaulters of the Bank no representation was received from the Borrower and its above-name proprietor and guarantors, mentioned at serial no. 1 to 6. ORDER OF THE REVIEW COMMITTEE FOR DECLARATION OF WILFUL DEFAULTERS: The Review Committee chaired by the undersigned MD

& CEO of the Bank and the Directors of the Bank as members, after due consideration of the above said facts and evidence on record in its meeting held on 10.12.2021 concurred with the order of identification committee and found that the captioned borrower and its above named Proprietor and guarantors mentioned at serial Nos. 1 to 6 are responsible for above event(s) of wilful default, which constitute cogent ground (S) of being declared as 'Wilful Defaulter' in terms of extant Bank guidelines issued in consonance with the RBI guidelines/Master Circular No DBR No. CID BC 22/20.16.003/2015-16 dated 01.07.2015.

Declared above named persons i.e. M/s tiles Emporium, Shri Deepak Kalra, Smt. Saroj Rani Mittal, Shri Krishna wanti, Smt. Sashi Rani and Shri Rajan Bharara as "Wilful Defaulter(s)" For the reason(s) mentioned above.

Dr. REKHA JAIN (DIRECTOR-MEMBER)

(CH. S.S. MALLIKARJUNA RAO) - CHAIR PERSON MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Note:- The above Order of Declaration of Wilful Default dated 29.12.2021 was sent by Speed post Registered post on 22.02.2022, 03.03.2022

(DIRECTOR-MEMBER)

GAUTAM GUHA

& 11.03.2022 to all the persons mentioned above at their addresses provided by them to the Bank, but the same were returned undelivered every time. Therefore, it is hereby published for the information to all concerned as substituted service.



New Delhi

FINANCIAL EXPRESS

Double whammy strikes grape growers in Nashik

Loss of export market due to Russia-Ukraine war and unseasonal rains force distress sale

NANDA KASABE Nashik, March 22

BHUSHAN RIKAME HAD earmarked his two-acre grapegrowing plot for exports to the European Union. But on Saturday, the 31-year-old farmer had to sell his entire crop in a local mandi in Ahmedabad as unseasonal rains caused cracking of the fruit. "The grapes were to be sold at ₹80 per kg for the European market. But I had to sell at ₹10-12 per kg at the mandi, and ended up losing ₹250,000 per acre as the actual cost of production was

It's been a double whammy for grape farmers in Nashik, one of the largest grape growing belts in the country. The Russian invasion of Ukraine has made exports uncertain and unseasonal rains have increased domestic availability of grapes, forcing farmers to sell their produce at throwaway prices.

₹300,000 per acre, "he said.

Suresh Kalamkar, another grape farmer points out that at least 30 bundles of newspapers are required to cover the fruit for an acre before harvesting the crop. "One kg of paper costs ₹30 and we have pay ₹3,000 per acre to cover the fruit. A similar amount is required to be paid to labourers for removal of the paper sheets and harvesting the fruit," he says. Kalamkar was hoping to get ₹70-80 per kg for his fruit. But since the European Union rejects cracking in grapes, his hopes of good exports have been dashed.

"Now I can only get ₹10-15 per kg for this, he said, showing the cracked fruit. Kalamkar has also begun diversifying from grapes to other short-term vegetables that can get him

CENTRAL RAILWAY

OPEN TENDER NOTICE

NO.: CR/BB/SNT/

SOUTH/2022/07

Divisional Railway Manager

(S&T), 1st Floor, Parcel Office

Building, above P.F.No.14 & 15,

Central Railway, Mumbai CST

400 001, for and on behalf of the

President of India Invites Open

contractors. The time, date and

submission of tender up to

15.00 Hrs on 21/04/2022 and

will be opened at 15.15 Hrs on

the same day. SN: 1 Name of

Approximate Cost: Rs. 71.88/-

Lakhs. EMD: Rs 143800.00/- Date

of Opening: 21/04/2022 Validity:

45 days Completion Period: 6

Months. This tender complies with

Public Procurement Policy (Make

in India) Order 2017, dated

15/06/2017. Complete details of

tenders are available at Central

www.ireps.gov.in the complete

downloaded from the website.

The complete details of tenders

are also available in the "Notice

Board" of the Divisional Railway

Manager (S&T)'s Office, Mumbai

RailMadad Helpline 139

DRM(S&T) CSTM.

tender documents

Signalling


Improvement/Training/Works

culvert in Mumbai

reputed

Widening/

tenders from



Grape exports

2018-19			20	19-20	2020-21		
Quantity Value		Quantity	Value	Quantity	Value		
Country	(Tonne)	(\$ million)	(Tonne)	(\$ million)	(Tonne)	(\$ million)	
Russia	30,293.17	44.39	23,736.47	36.53	24,228.01	32.19	
Ukraine	123.41	0.16	187.56	0.29	252.19	0.3	
China	2,677.38	5.48	1,911.27	4.4	1,708.08	3.23	
Source: DGCIS							

better prices. Due to the recent unseasonal rains last week, of the total grape damage on 869.20 hectare in Nashik district, grapes on 780 hectares were damaged in Niphad taluka alone.

Pruning of the grapes began from September 15 and ever since there have been rains almost every month, affecting the flowering initially. When the sugar content is high, then cracking began. "The life of a farmer is tough," Kalamkar said, adding farmers have to keep awake at nights to ensure that the vineyards are irrigated as there is load shedding during the day.

Grape growers have been facing losses for the last three years — Covid impacted sales for two years and cracking of grapes last year, said Ravindra Nimse, president of the Nashik branch of Maharashtra State Grape Growers Association.

Kailash Bhosale, vicechairman of Maharashtra Grape Growers' Association, said farmers have exported 15,000 tonne of grapes to Russia and 1,000 tonne to Ukraine. The usual exports to

these countries are 24,000 tonne and 2,300 tonne, respectively. But exports to both countries have now come to a grinding halt.

The loss of exports to Europe is particularly worrying as of the 129,000 tonnes grapes exported in 2020-21 (December-April), 96,000 tonne were exported to European countries alone. The situation is so bad now that at least a third of grape growers are wanting to shift from grape cultivation and shift to other crops. This is a 365-day crop and requires to be looked after throughout the year, Bhosale says.

Significantly, this season, grape growers had decided to fix prices of grapes to be sold to traders in anticipation of a good crop. Jagannath Khapre, president, Grape Exporters Association (GEA) points out that while official export figures are available for Europe and UK, there is no official record of exports to Bangladesh, Sri Lanka, China Khapre however agrees that exports this year have slowed European countries.

CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED

Phase-III, Old Ishwar Nagar, New Delhi-20, Tel: 011-40551200 *Fax No.011-40551280/81 *Website: www.cordscable.com, E-mail: ccil@cordscable.com *CIN L74999DL1991PLC046092

NOTICE

and Company's Code for prevention of Insider Trading, the Trading window for dealing in the Securities of the Company shall remain closed from Friday, April 01, 2022 for the Directors, Designated Employees, Insiders and their immediate relatives till 48 hours after the audited Financial Results for the 4th quarter / Financial

Accordingly, all designated persons, Directors, promoters, persons acting in concert, employees of the Company along with their respective immediate relatives, persons having contractual and fiduciary relation with the Company including but not limited to Auditors, accountancy firm, law firms, analysts, consultants, etc., assisting or advising the Company, shall not involve in any transaction for dealing/trading in the securities of the Company during the period when Trading Window is closed.

For Cords Cable Industries Limited

Place: New Delhi Date: March 22, 2022

Garima Pant Company Secretary

CLASSIFIEDS

यूनियन बैंक () Union Bank

THANE KHOPAT BRANCH: Oasis Saphire Ground Flr, Opp to S.T. Bus Depot, Khopat Thane West 400601 **POSSESSION NOTICE** [Rule-8 (1)] (For Immovable Property)

The undersigned being the Authorized Officer of Union Bank of India, Thane Khopat Branch under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under Section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice Dated 07.04.2021, calling upon the Borrower M/s. Mecheri Engineering Co., Partners: Ms. Deeptika Uchil and Ms. Yashoda S. Uchil, Guarantor- Ms. Supreeth Sudhakar Uchil to repay the amount mentioned in the notice being ₹ 24,75,028.78 (Rupees Twenty Four Lakhs Seventy Five Thousand Twenty Eight and Paise Seventy Eight Only) and interest thereon

within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower/ Mortgagor/ Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/ Mortgagor/ Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of he said Act read with rule 8 of the said rules of this 21st day of March of the year 2022 and handed over to undersigned

The Borrower's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The Borrower/ Mortgagor/ Guarantor in particular and the public in general is hereby caution not to deal with the Property and any dealings with the Property will be subject to the charge of Union Bank of India, Thane (Khopat) Branch, for an amount of Rs. 24,75,028.78 (Rupees Twenty Four Lakhs Seventy Five Thousand Twenty Eight and Paise Seventy Eight Only) **Description of Secured Assets:**

Flat No. 2, Ground Floor, Building No. 95, Brindaban Mathura CHSL, Brindaban Society, Thane West - 400601

Date: 21.03.2022 Place: Thane

Authorised Officer, UNION BANK OF INDIA

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (WATER) PROJECT-I THROUGH EE (PROJECT) WATER-VII JAL SADAN, LAJPAT NAGAR-II, NEW DELHI-110 024 Office Telephone No. 011-29818410 E-mail Id: executivewater7@gmail.com No. F-7(141)/DJB/Press NIT/EE(Project)W-VII/2022/1220



Date: 21.03.2022

		PRESS NIT NO. 05 (2021-22) Re-Invited								
	S. No.	Name of Work	Estimated Cost (in Rs.)	Earnest Money (in Rs)	Date of release of tender in e-procurement and Tender ID	Last Date / time of receipt of tende through e-procurement solution				
	1.	Replacement of 900 mm dia PSC water main from District park Hauz Khas to Aurobindo marg under EE (Proj) W-VII	4 14 01 049/-	8,29,850/-	21.03.2022 2022_DJB_219279_1	04.04.2022 up to 3:00 PM				
1	The details of the tender can be seen on web-site https://govtprocurement.delhi.gov.in									

Sd/- (ANIL KUMAR) ISSUED BY P.R.O. (WATER) Advt. No. J.S.V. 1293 (2021-22) STOP CORONA:-"WEAR MASK. FOLLOW PHYSICAL DISTANCING. MAINTAIN HAND HYGIENE"

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (WW)

EE (Project) W-VII

THE STATES	THE STREET & NO.							
177	SHORT PRESS NIT No. 53/(2021-22)							
S. No	Name of Work	Estimated Cost	Money	Processing	Publication date of tender in e- procurement Solution	Last date & time for receipt of tender from e-procurement solution		
1.	Construction of foundation and shed for the incineration unit at Raw Water Inlet Haiderpur WW Phase-I.	4355975/-	87200/-	500/-	22.03.2022	29.03.2022		

The more detail required above can be seen on website www.delhi.govtprocurement.com Sd/-ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 1294 (2021-22)

(Tender ID: 2022 DJB 219345 1)

financialexp.epap.in

(ER. B.L. KURU) EX. ENGINEER(C) PLANT, WW C/o CE(WW) "STOP CORONA; WEAR MASK, FOLLOW PHYSICAL DISTANCING, MAINTAIN HAND HYGIENE"

or Russia. Figures that are shared are usually taken from exporters and these may not be accurate, he says. not only to Russia but also

Regd. Off.: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg, Near Okhla Industrial Area

Pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 Year ended on March 31, 2022 is made public.

By order of the Board of Directors

LOANS

BUSINESS

FOR FUNDING AGAINST LISTED SHARES VFSL Capita

naz@vfslcapital.com www.vfslcapital.com

0070691857-82-1

PERSONAL

THANKS GIVING

HOLY Spirit thou who

makes me see everything and shows me the way to Reach my Ideals, who gives me the Divine gift to forgive and forget the wrongs that is done unto me and who is in all instances of my life with me. I in this short dialogue want to thank you for everything and confirm once more that I do not want to be separated from you, no matter how great the material desire may be I want to be with you and my loved ones in your Perpectual glory forever Amen. ZDS. 0070777040-1

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers of Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers of otherwise acting on an advertisement in any manne whatsoever. Registered letters are not accepted in response to box number advertisement."

Govt's FY23 food subsidy bill may be ₹26,000 crore lower

SANDIP DAS New Delhi, March 22

THE GOVERNMENT'S FOOD subsidy expenses next fiscal may decline by around ₹26,000 crore, mainly because of anticipated lower volume of procurement of wheat in the rabi marketing session beginning on April 1. Procurement of the cereal may be around 34 million tonne, as against the target of 44 million tonne.

An anticipated surge in wheat exports because of global demand is currently pushing up domestic prices above the minimum support price (MSP). In Madhya Pradesh, for instance, mandi prices are currently around ₹2,100-₹2,350 per quintal against the MSP of ₹2,015 a quintal. There is expected to be a sharp fall in procurement by agencies in the state because of export prospects and its proximity to Kandla and Mundra ports, from where most of India's shipments take place.

"We anticipate a much lower wheat procurement this season against the target as prices are ruling above MSP," Faiz Ahmed Kidwai, principal secretary, department of food and civil supplies, Madhya Pradesh, told FE. In Madhya Pradesh, the target was to procure 12.9 MT of wheat, which looks

HIGH EXPORT DEMAND



■ Wheat exports could cross 10 MT in FY23; mostly to be from MP

unlikely to materialise. This season, the target was set for wheat procurement for Punjab (13.2 MT), Haryana (8.5 MT), Uttar Pradesh (6

MT) and Bihar (1 MT). In these states, arrivals of wheat will pick up after April 1. Wheat exports could be upwards of 10 MT in 2022-23 and the shipments would

mostly from Madhya Pradesh. India traditionally exports wheat to South Asian neighbours and northern Africa. Traders say exports from other wheat-producing states, especially Punjab and Haryana, will be challenging because of the absence of requisite transportation infrastructure, higher cost of transport to ports in the western region, and higher levies on grain purchase.

■ As a result, wheat procurement is likely to against a target of 44MT

While Punjab and Haryana impose levies such as mandi fee, arthia commissions, and rural development cess of 8.5% and 6.5% respectively on the wheat purchase by traders, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have levies of 3.5% and 3.8% respectively.

In 2021-22, India is expected to export a record 7 MT of wheat.

The economic cost of wheat for the Food Corporation of India (FCI), which includes MSP paid to farmers, storage, transportation and other incidental expenses for 2022-23, is estimated at ₹2,589 a quintal. "There will be substantial reduction in expenses towards food subsidy, because of lower procurement of wheat," a food ministry official said.

Date of incorporation of Corporate Debtor

Authority under which corporate debtor is

correspondence with the interim

(b) Details of authorized representatives

resolution professional

The Union Budget for 2022-23 has made a provision of ₹2.06 lakh crore under food subsidy. Wheat has a share of 45% of the total food subsidy expenses.

Supply of grains for the public distribution system under the National Food Security Act won't be impacted by factors such as higher exports and lower procurement, as stocks with the FCI are very high. At the beginning of this month, FCI was saddled with wheat stocks of 23.4 MT, much higher than the buffer norm of 7.46 MT.

According to official sources, the government has firmed up the export strategy in a series of inter-ministerial meetings over the last few weeks. It reckons that Russia and Ukraine, which conventionally used to have a combined share of more than quarter of the global wheat trade, may remain absent from the key markets for several months.

"We anticipate the surge in exports, especially from Madhya Pradesh, to continue in coming months. Farmers will be realising much better prices than the MSP announced by the government," said Kunal Shah, joint director at Shah Corporation, a wheat trading firm based in Vashi, Navi Mumbai.

NOTICE

Notice is hereby given that the Certificate for the under mentioned Equity Shares of the company have been lost/misplaced and the holder Daxa Ratilal Pitroda of the said equity shares have applied to the Company Control Print Limited to issue duplicate share certificate.

Any person who has a claim in respect of the said Share should lodge the same with the Company Control Print Limited at its Registered office C 106. Hind Saurashtra Industrial Estate, Andheri Kurla Road, Marol Naka, Andheri East, Mumbai, Maharashtra, 400059 within 21 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificate to the aforesaid applicant without any further intimation. Name of No. of Distinctive Certificate

	Dilato Holdo	Silial C	1100	1403			
003000	DAXA R PITRODA	100	2190601-2190700	100			
			Daxa	Ratilal Pitroda			
		Address:- Chamunda Jyot 4-Gayatri Nagar					
Date : 23-3	3-2022		Rajkot 3	60002,Gujarat			

Form No. INC-19 **Notice**

[Pursuant to rule 22 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] I. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (4) of section 8 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Regional Director, Western Region, Mumbai for conversion of Araaish Foundation ("the Company"), a section 8 company, into a "Private Company" within the meaning of section 2(68) of the Companies Act.

2. The principal objects of the company are as follows: To advance social, educational, and economic opportunities for the

poor or economically / socially disadvantaged people in general and women and children in rural and urban communities in particular, by organizing programmes with a view to bring about changes in living conditions. 3. A copy of the draft memorandum and articles of the proposed

company may be seen at the registered office of the Company situated at A 4-A, Shiv Sagar Estate, Worli, Mumbai - 400 018. 4. Notice is hereby given that any person, firm, company, corporation

or body corporate, objecting to this application may communicate such objection to the Regional Director, Western Region within thirty days from the date of publication of this notice, by a letter addressed to the Regional Director, Western Region having office situated at 100 Everest, 5th Floor, Marine Drive, Mumbai- 400 002 and a copy of which shall also be forwarded to the applicant to its registered office situated at A 4-A, Shiv Sagar Estate, Worli, Mumbai – 400 018.

For Araaish Foundation (Rahul Kadri) Director Dated this 19th day of March, 2022 DIN: 00201167

PUBLIC ANNOUNCEMENT Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

FORM A

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF G. C. PROPERTY PRIVATE LIMITED RELEVANT PARTICULARS G. C. PROPERTY PRIVATE LIMITED Name of Corporate Debtor

28th August 2007

incorporated / registered Corporate Identity No. / Limited Liability U70103MH2007PTC173581 Identification No. of Corporate Debtor Bhupati Chambers, 5th Floor, 13, Mathews Road Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor Charni Road, Mumbai MH- 400004 Insolvency commencement date in Date of order 11-03-2022 respect of corporate debtor Order Received on 22-03-2022 07-09-2022 Estimated date of closure of insolvency resolution process Name and Registration number of the Rajesh Jhunjhunwala insolvency professional acting as Interim Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00647/2017-2018/11102 Resolution Professional A51, Aashit Chs. Azad Road, H B Gawde Marg, Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered wit Stanburg Estate, Juhu Koliwada, Mumbai -400049 E-mail: jhunjhunwala.rajesh@gmail.com A51, Aashit Chs. Azad Road, H B Gawde Marg. Address and e-mail to be used for

Last date for submission of claims Classes of creditors, if any, under clause (b) None of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional Names of insolvency professionals identified Not Applicable to act as authorised representative of creditors in a class (three names for each class) (a) Relevant forms and a) Weblink: https://ibbi.gov.in/home/downloads

Stanburg Estate, Juhu Koliwada, Mumbai -400049

E-mail: cirp.gcppl@gmail.com

b) Physical Address: NA

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the G. C. Property Private Limited on 11th March 2022 order received on 22nd March 2022) The creditors of G. C. Property Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act

r before 05-04-2022 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

as authorised representative of the class [NA] in Form CA Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Name and Signature of Interim Resolution Professional: RAJESH JHUNJHUNWALA

Date: 22.03.2022 | Place: Mumbai Reg. No.: | IBBI/IPA-001/IP-P00647/2017-2018/11102

SAMV Delhi Branch First Floor, 17, Parliament Street, New Delhi **Indian Bank** इंडियन बैंक Phone: 011-23342168, Email: armbdelhi@indianbank.co.in 🔔 इलाहाबाद ALLAHABAD

Ref. No. SAM-Delhi/2022/277

future, save and except Project Assets.

you have no reason/explanation to offer in rebuttal.

Mr. Nishant Kumar Srivastava

Dear Sir,

M/s Kiratpur Ner Chowk Expressway Ltd. IL&FS Financial Centre, Plot no. C-22, G-Block, Bandra Kurla Complex (East) Mumbai - 400051

Mr. Ashutosh Chandwar (Director of M/s Kiratpur Ner Chowk Expressway Ltd.), S/o Mr. Kailash C. Chandwar, A-43, Ishaan -2, Opp. Karnavati Club, SG Highway Vejalpur, Ahmedabad City, Ambawadi Vistar, Ahmadabad, Gujarat - 380015

(Director of M/s Kiratpur Ner Chowk Expressway Ltd.), S/o Mr. Vishwanath Sahai, N-51, Adinath Nagar, JLN Marg, Jaipur – 302018

Sub: M/s. Kiratpur Ner Chowk Expressway Ltd. with SAMV Delhi Branch- Classifying as Willful Defaulter- Show Cause Notice This is as per the direction of Willful Defaulter Screening Committee (WDSC) issued vide its order/decision dated 17.02.2022 and in terms of the findings of the said Screening Committee wherein the

That, the all of you are the Suspended Directors has availed credit facility from our Bank under sole banking arrangement. The aforesaid borrower firm i.e. M/s. Kiratpur Ner Chowk Expressway Ltd. with SAMV Delhi Branch was sanctioned credit facility of Rs. 350.00 Crore (Indian Bank) and Rs.100.00 Crore (erstwhile Allahabad Bank) on 24.08.2016 on the terms and conditions as stipulated in the sanction letter & in the documents executed by all of you in pursuance thereto through our New Delhi Main Branch (IB) and Parliament Street New Delhi Branch (e-AB). The limi . A first pari-passu charge in favour of the Lenders/Security Trustee for the benefit of the Lenders in a form satisfactory to the Lenders, of all the Borrower's immovable assets, if any both present and

2. A first pari-passu charge in favour of Lenders/Security Trustee for the benefit of the Lenders of all the Borrower's moveable properties, both present and future, save and except the Project Assets. 3. A first pari-passu charge of all the bank accounts including but not limited to the Escrow Account opened in a designated bank, where all cash flows from the Project shall be deposited, and the sub Account (or any account in substitution thereof) that may be opened in accordance with this agreement and supplementary Escrow Agreement or any other Project Agreement, provided such first charge shall only be to the extent permitted as per the waterfall of priorities prescribed under Escrow Agreement and Concession Agreement.

. A first pari-passu charge of all revenues of the Borrower from the Project or Otherwise, Project's book debts, operating cash flows, commissions or revenues of whatever nature from the Project. 5. A first pari-passu charge by way of assignment or creation of Security Interest on all the rights, title, interest, benefits, claims and demands whatsoever of the Borrower under the Concession Agreement and the Project Agreements, to the extent covered by or in accordance with the Substitution Agreement.

6. Non Disposal Undertaking/Power of Attorney to hold 51% shares of the Borrower during construction period plus two years thereafter and 26% during the balance tenor of the facility, subject to provisions of the concession agreement.

The aforesaid the Suspended Director of borrower Company was requested to pay interest and other charges and also the instalments of the principal in accordance with the terms of the sanction ticket and loan agreements executed by the borrowers / guarantors. However, the borrower has failed for payment of dues and committed default in performing the conditions in the loan agreement causing thereby classification of the account as NPA as per RBI guidelines. The status of the account is enumerated hereunder:

(Rs. In crores) Date of NPA Dues on 07.03.2022 28.11.2018 (IB) Book Balance: 134.90 MOI: 171.65 Total Dues: 306.55 Book Balance: 37.83 MOI: 37.48 Total Dues: 75.31 29.11.2018 (e-AB) In view of the default committed by the Suspended Director of borrower Company the case was examined by the WDSC on 17.02.2022 with a view to ascertain willful default on the part of the

Company had prima facie committed various willful irregularities/defaults as detailed hereunder and accordingly meets the criteria to be classified as willful Defaulter in terms of the guidelines laid The irregularities/defaults/evidences as extracted out by the screening committee and directed to be communicated to the Suspended Director of borrower Company calling for their submission as to why they should not be a declared as willful defaulter as per RBI guidelines are enumerated as under:

Suspended Director of borrower Company as per the guidelines laid down by the RBI. It was observed by the Willful Defaulter Screening Committee that the Suspended Director of borrower

Cause of Action: Diversion of funds in term of clause 2.1.3(b) read with 2.2.1(b) & 2.2.1(c)

The holding company ITNL was handling 28 roads project and 6 bridges projects. While reviewing financial position of the holding company, it is observed that current assets constitute trade receivables from the related parties and short term loans & advances recoverable from the related parties. Whereas current liabilities constitute maturity of NCD and interest accrued thereon. The round tripping of funds (justifying utilization as advance payment and project management cost) and funds withdrawn immediately on disbursement might have been utilized for funding the other In view of the above detailed Diversion of funds in term of clause 2.1.3(b) read with 2.2.1(b) & 2.2.1(c) of the RBI Master Circular No. No. RB/2015-16/100 DBR.No.CID.BC.22/20.16.003/ 2015-16

dated 01.07.2015, each of you are required by the WDSC to show cause as to why each of you should not be a declared a willful defaulter for the reported capacity to reasons specified hereinabove.

Please ensure that your reply should reach us on or before 31.03.2022 failing which the committee would be constrained to proceed further in the matter based on the evidence on record treating as i

Branch Manager For Wilful Defaulter Screening Committee (WDSC)

ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 3 अप्रैल, 2022 को 10.30 पूर्वा. से 5.30 बजे अप. (प्रति 5 मिनट के

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक के परिसमापन सम्पदा के भाग का निर्माण करने वाली ऑन डॉट करियर एंड कार्गो लिमिटेंड (परिसमापन में) के स्वामित्व की परिसम्पत्तियों एवं सम्पत्तियों की बिक्री

अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री ई-नीलामी प्लेटफार्म https://www.eauctions.co.in के माध्यम से की जाएगी। बिक्री के लिये परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरणः

परिसम्पत्ति की अवस्थिति	ो पता ∕ एरिया	ब्लाक नं.	आरक्षित मूल्य (आईएनआर) ईएमडी/वृद्धि राशि
देहरादून	शॉप नं. 129, प्लॉट नं. 75, राजपुर रोड, देहरादून, एरिया माप 256 वर्ग फीट पर प्रथम तल पर ऑफिस ब्लॉक	1	25.00 लाख 2.50 लाख / 50000
लुधियाना	जुको कॉम्प्लैक्स के नाम से विदित बिल्डिंग, विश्वकर्मा चौक, मिलरगंज, लुधियाना, एरिया माप 1131 वर्ग फीट में प्रथम तल पर ऑफिस ब्लॉक	2	22.00 लाख 2.20 लाख / 50000
गाजियाबाद	शॉप नं. 11/4बी, चन्दर नगर, कॉमर्सियल कॉम्पलैक्स, प्लॉट नं. 4ए एवं 4 बी, गाजियाबाद, एरिया माप 215 वर्ग फीट में ऑफिस ब्लॉक	3	8.50 लाख 1.00 लाख / 25000

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें तथा सम्पत्तियों के अन्य विवरण वेबसाईट https://www.eauctions.co.in पर अपलोड की गई है।

कोई भी संवेदनशील तथा इच्छुक क्रेता उसे देख सकते हैं तथा बोली जमा कर सकते हैं। ई-नीलामी एजेंसी (लिंकस्टार इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड) की ओर से सम्पर्क व्यक्तिः श्री दीक्षित प्रजापति.

स्थानः नई दिल्ली

मामले में।

स्थान:दिल्ली

दिनांक:22.03.2022

नीमित देयता भागीदारी अधिनियम

2008, धारा 13 (3) के मामले में

राहुल ऑटोमोटिव्स एलएलपी, (पंजीकरण संख्या

एएओ–6222) जिसका पंजीकृत कार्यालय–प्लॉट नंबर

54६४४, ग्राम—नंगली पूना, नई दिल्ली—110036 है, के

अपने पंजीकृत कार्यालय को ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली'' से "हरियाणा" राज्य में बदलने के लिए सीमित

देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के

अनुपालनार्थ आम जनता को एतद्दवारा सूचना दी जाती

है। कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के

पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित

होने की संभावना है.वह अपने हितों की प्रकृति और एक

हलफनामे द्वारा समर्थित विरोध के आधार की बताते हुए

अपनी आपत्तियों को आवेदक एलएलपी के ऊपर

उल्लिखित पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में

एलएलपी के संबंधित रजिस्ट्रार को इस सूचना के

प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर सुचना दे

सकता है अथवा उसका कारण बता सकता है या

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms Divva

next date, purpose of case, orders and judgments

as well as other case information is available on

ttp://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Kotak Mahindra Bank Vs

cCNR NO: PBLD03-026863-2019

Publication Issued To: Prem Singh

Address- S/o Not Known, R/o 54,

Arabpur, Fatehpur UP 212622

of this court that you, the above named

the ordinary way of service, hence this

ith a direction that you should appear

at 10:00 a.m. or within 30 days from the

date of publication of this proclamation.

aid case will be heard and determined

ogon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms Divya

next date, purpose of case, orders and judgments

as well as other case information is available on

CNR NO: PBLD03-026867-2019

Next Date: 26-04-2022

http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Publication Issued To: Roshan

Bano Address- W/o Wasim Khan

R/o 158, Asanwa Post Idilpur,

Asaon, Partapgarh UP 230132

Whereas it has proved to the satisfaction

ccused/accused persons can't be served

roclamation under 82 of code of criminal

ith a direction that you should appear

at 10:00 a.m. or within 30 days from the

tate of publication of this proclamation.

our part to appear as directed above

as per law, in your absence, for details

aid case will be heard and determined

logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs

हिमाचल प्रदेश-173205

टेली. नं. 0172 2650973, 2650974, 2650977

वेबसाईटः www.dsl-india.com

ईमेलः share@dsl-india.com

ईमेल पते का अद्यतनीकरण/पंजीकरण

हमारी सुचना तिथि 18.02.2022 के अधिक्रम में तथा

एमसीए सर्क्युलर्स तिथि 8 अप्रैल, 2022, 13 अप्रैल,

JMIC Ludhiana

personally before this court on 26-4-2022

Kotak Mahindra Bank

Roshan Bano

Sharma JMIC, Ludhiana

as per law, in your absence, for details

district_notice&district=Ludhiana

ake notice that, in case of default on

ersonally before this court on 26-4-2022

Next Date: 26-04-2022

Prem Singh

Sharma JMIC, Ludhiana

कृते एवं आवेदक की ओर से

कुणाल राव

नामित भागीदार

पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है।

ईमेल आईडीः admin@eauctions.co.in मोबाईल नं. + 91 7874138237, परिसमापक का सम्पर्क नम्बरः श्याम अरोडा, ई-मेल आईडीः arora.shyaam@yahoo.com, मोबाईल नं.: 9654102759 श्याम अरोड़ा, परिसमापक

IBBI पंजी सं: IBBI/IPA-002/IP-N00546/2017-18/11703 तिथि: 23 मार्च. 2022 परिसमापक का पताः १६. अरावली अपार्टमेन्ट, अलकनंदा, नर्ड दिल्ली-110019

ऑन डॉट कुरियर एंड कार्गो लिमिटेड (परिसमापन में) (माननीय एनसीएलटी के आदेश तिथि 24 मई. 2021 के माध्यम से परिसमापन प्रक्रिया के अधीन कम्पनी) की ई-नीलामी बिक्री सचना कम्पनी का कार्यालयः प्लॉट नं. ७, २रा तल, ब्लॉक-2, कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110015 दिवालिया तथा दिवाला संहिता, 2016 के अंतर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री

आवेदन करने तथा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथिः 1 अप्रैल. 2022 ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 3 अप्रैल, 2022 को 10.30 पूर्वा. से 5.30 बजे अप. (प्रति 5 मिनट के

असीमित विस्तार के साथ) माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा नियक्त परिसमापक के परिसमापन सम्पदा के भाग का निर्माण करने वाली ऑन डॉट कृरियर एंड कार्गो लिमिटेड (परिसमापन में) के स्वामित्व

की परिसम्पत्तियों एवं सम्पत्तियों की बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री ई-नीलामी प्लेटफार्म https://www.eauctions.co.in के माध्यम से की जाएगी। बिक्री के लिये परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरणः

परिसम्पत्ति की अवस्थिति	पता∕एरिया	ब्लॉक नं.	आरक्षित मूल्य (आईएनआ ईएमडी∕वृद्धि राशि
देहरादून	शॉप नं. 129, प्लॉट नं. 75, राजपुर रोड, देहरादून, एरिया माप 256 वर्ग फीट पर प्रथम तल पर ऑफिस ब्लॉक	1	25.00 लाख 2.50 लाख / 50000
लुधियाना	जुको कॉम्प्लैक्स के नाम से विदित बिल्डिंग, विश्वकर्मा चौक, मिलरगंज, लुधियाना, एरिया माप 1131 वर्ग फीट में प्रथम तल पर ऑफिस ब्लॉक	2	22.00 लाख 2.20 लाख / 50000
गाजियाबाद	शॉप नं. 11/4बी, चन्दर नगर, कॉमर्सियल कॉम्पलैक्स, प्लॉट नं. 4ए एवं 4 बी, गाजियाबाद, एरिया माप 215 वर्ग फीट में ऑफिस ब्लॉक	3	8.50.00 लाख 1.00 लाख / 25000

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें तथा सम्पत्तियों के अन्य विवरण वेबसाईट https://www.eauctions.co.in पर अपलोड की गई है।

कोई भी संवेदनशील तथा इच्छुक क्रेता उसे देख सकते हैं तथा बोली जमा कर सकते हैं। ई-नीलामी एजेंसी (लिंकस्टार इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड) की ओर से सम्पर्क व्यक्तिः श्री दीक्षित प्रजापति.

ईमेल आईडी: admin@eauctions.co.in मोबाईल नं. + 91 7874138237, परिसमापक का सम्पर्व नम्बरः श्याम अरोड़ा, ई-मेल आईडीः arora.shyaam@yahoo.com, मोबाईल नं.: 9654102759

श्याम अरोडा, परिसमापक IBBI पंजी सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00546/2017-18/11703 परिसमापक का पता: 96, अरावली अपार्टमेन्ट, अलकनंदा तिथि: 23 मार्च 2022 नर्ड दिल्ली-110019

ICICI Bank

पंजी. कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टावर, निकट चकली सर्किल, पुराना पाद्रा रोड, बड़ोदरा–390007 कॉर्पोरेट कार्यालयः टावर्स, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई-400051 अंचल∕शाखा कार्यालयः टावर, एनबीसीसी प्लेस, लोधी रोड, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003

[नियम-8 (1) के अंतर्गत) कब्जा सूचना]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के अंतर्गत आईसीआईसीआई

स्थानः नर्ड दिल्ली

बैंक लिमिटेड (''आईसीआईसीआई बैंक'') के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना तिथि 7 जन, 2021 जारी कर मैं, एबीएम टैवल्स एंड टर्स प्राईवेट लिमिटेड (''ऋणधारक एवं प्रतिभृति प्रदाता'') तथा श्री बलवंत सिंह चुघ, श्रीमती मनजीत कौर चुघ तथा श्रीमती रुपिन्दर कौर चुघ (''वैयक्तिक गांरटर एवं मार्टगैजर'') को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर मै. एबीएम ट्रैवल्स एंड टुर्स प्राईवेट लिमिटेड को स्वीकृत सुविधाओं के अंतर्गत विशेष रूप से सूचना में वर्णित समस्त बकाया राशि 30 मई, 2021 को रु. 9,46,02,836.78 (रु. नौ करोड़ छियालिस लाख दो हजार आठ सौ छत्तीस एवं पैसे अठहत्तर मात्र) के साथ आगे का ब्याज, चुक/दंड ब्याज तथा वसूली की तिथि तक उस पर अन्य चार्जेज (''बकाया देयता'') वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, गारंटर, मार्टगैजर, प्रतिभृति प्रदाता इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, गारंटर, मार्टगैजर, प्रतिभृति प्रदाता तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 17 मार्च, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन प्रतिभृत सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय आगे के ब्याज, चुक/दंड ब्याज तथा वुसली की तिथि तक अन्य चार्जेज के साथ 28 फरवरी, 2022 को रु. 10, 21, 44.878.53 की राशि के लिये आईसीआईसीआई बैंक के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक प्रतिभति प्रदाता. गारंटरों. मार्टगैजरों का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा

13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

श्रीमती रुपिन्दर कौर चुघ तथा श्रीमती मनजीत कौर चुघ के नाम में अपार्ट. नं. बी 5/805, 7वां तल, ब्लॉक बी, सहारा ग्रेस, एमजी रोड, सेक्टर 28, गुरुग्राम, हरियाणा−122002, सुपर एरिया माप 4990.40 वर्ग फीट में स्थित आवासीय सम्पत्ति। चौहद्दी: पूर्व: लिफ्ट∕लॉबी, पश्चिम: खला, उत्तर: खला

तिथि: 17 मार्च, 2022 हस्ता/-(प्राधिकृत अधिकारी)

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड स्थानः गुरुग्राम

ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

ESCORTS LIMITED

Registered Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad, Haryana - 121003 Corporate Identification Number (CIN): L74899HR1944PLC039088, Tel: 0129 - 2250222; Fax: 0129 - 2250009 Website: www.escortsgroup.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 37.491.556 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 28.42% OF THE EXPANDED VOTING SHARE CAPITAL OF ESCORTS LIMITED "TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY KUBOTA CORPORATION "ACQUIRER") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED (THE "SEBI (SAST) REGULATIONS") (THE "OPEN OFFER" OR "OFFER"). NO OTHER PERSON IS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER FOR THE PURPOSE OF THIS OPEN OFFER.

This advertisement is being issued by Morgan Stanley India Company Private Limited, the manager to the Open Offer ("Manager/Manager to the Open Offer"), for and on behalf of the Acquirer in respect of the Open Offer ("Advertisement"), as advised by the Securities and Exchange Board of India on 21 March 2022.

This Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with the: (a) public announcement dated 18 November 2021:

(b) detailed public statement dated 25 November 2021 which was published on 26 November 2021 in the following newspapers: Financial Express (English), Jansatta (Hindi), Satyajay Times (Hindi), Navshakti (Marathi) ("Detailed Public Statement"); (c) letter of offer dated 3 March 2022 along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ("Letter of Offer");

(d) Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum dated 10 March 2022 which was published on 11 March 2022 in the following newspapers: Financial Express (English), Jansatta (Hindi), Satyajay Times (Hindi), Navshakti (Marathi) ("Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum");

(e) advertisement dated 16 March 2022 which was published on 17 March 2022 in the following newspapers: Financial Express (English), Jansatta (Hindi), Satyajay Times (Hindi), Navshakti (Marathi) ("Advertisement 1"); and (f) advertisement dated 19 March 2022 which was published on 20 March 2022 in the following newspapers: Financial Express

(English), Jansatta (Hindi), Satyajay Times (Hindi), Navshakti (Marathi) ("Advertisement 2"). This Advertisement is being published in all such newspapers in which the Detailed Public Statement, Pre-Offer

Advertisement cum Corrigendum, Advertisement 1 and Advertisement 2 were published. Capitalised terms used but not defined in this Advertisement shall have the same meaning assigned to such terms in the

The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information related to the Open

As advised by SEBI, the following information will be disclosed twice on each Working Day until the conclusion of the Tendering Period i.e. 28 March 2022 (Monday) on the corporate announcements section of the Target Company on the BSE website (https://www.bseindia.com/stock-share-price/escorts-ltd/escorts/500495/corp-announcements/) and the NSE

website (https://www.nseindia.com/get-guotes/eguity?symbol=ESCORTS). a) the number of Equity Shares tendered in the Escrow Demat Account (with ICICI Bank Limited bearing depository participant identification number: IN301348 and the client identification number: 20200624) as per the Escrow Demat

Account statement received by the Manager from ICICI Bank Limited: b) the number of Equity Shares tendered by the Public Shareholders holding Equity Shares in the physical form with the

Registrar to the Offer as per the email received by the Manager from the Registrar to the Offer in this regard.

It is hereby expressly clarified that the Equity Shares tendered by the Public Shareholders shall be subject to validation and verification of submission of complete set of documents, as applicable. The Equity Shares "validly tendered" in the Open Offer shall be accepted in accordance with the SEBI (SAST) Regulations and the Letter of Offer. As mentioned in the Letter of Offer, in the event the number of Equity Shares validly tendered in the Open Offer by the Public Shareholders are more than the Equity Shares to be acquired under the Open Offer, the acquisition of Equity Shares from each Public Shareholder will be on a proportionate basis. Therefore, for avoidance of doubt, the number of Equity Shares tendered by the Public Shareholders disclosed as mentioned in Paragraph 1 above will not reflect the final number of Equity Shares which will be accepted by the Acquirer in the Open Offer.

All the provisions of the Letter of Offer, including with respect to: (a) "Terms and Conditions of the Open Offer" already disclosed at Section VII of the Letter of Offer at pages 42 to 47 of the Letter of Offer; (b) the "Procedure for Acceptance and Settlement of the Open Offer' already disclosed at Section VIII of the Letter of Offer at pages 47 to 51 of the Letter of Offer; and (c) "Form of Acceptance-cum-Acknowledgement" already provided at pages 72 to 81 of the Letter of Offer, with the instructions relating to the "Form of Acceptance-cum-Acknowledgement" at pages 66 to 71 of the Letter of Offer, shall continue to remain applicable in the manner as already disclosed in the Letter of Offer.

The Acquirer and its directors accept full responsibility for the information contained in this Advertisement (other than such information as has been obtained from public sources or provided by or relating to and confirmed by the Target Company), and undertake that they are aware of and will comply with their obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of

This Advertisement would also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).

Issued on behalf of the Acquirer by the Manager Morgan Stanley

Morgan Stanley India Company Private Limited SEBI Registration Number: INM000011203 Address: 18F, Tower 2, One World Center, Plot 841 Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, India Contact Person: Mr. Prakhar Jaju Tel: 91 22 6118 1000; Fax: 91 22 6118 1040

E-mail: escorts_openoffer@morganstanley.com

https://www.morganstanlev.com/about-us/global-offices/india

▲ KFINTECH KFin Technologies Limited

Registrar to the Open Offer

SEBI Registration Number: INR000000221 Address: Selenium, Tower B, Plot No- 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi - 500 032, Telangana, India Contact person: M Murali Krishna Telephone: +91 40 6716 2222; Fax: +91 40 2343 1551 Website: www.kfintech.com E-mail: el.openoffer@kfintech.com

Issued by the Manager to the Open Offer For and on behalf of the Acquirer

Signed for and on behalf of Kubota Corporation (Acquirer)

Name: Seiji Fukuoka

Title: General Manager, Tractor Business Planning & Control Department

Place: 2-47. Shikitsuhiqashi 1-chome. Naniwa-ku, Osaka 556-8601 Japan Date: 22 March 2022

Adfactors 608

Canara Bank शाखाः पलवल II, सरस्वती महिला कॉलेज के सामने, जी.टी. रोड, पलवल (121102) हरियाणा

सिडिकेटबेक SyndicateBank कब्जा सूचना [धारा 13 (4)](अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) (यहां के बाद उक्त ''अधिनियम'' वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 13.4.2021 जारी कर ऋणधारक श्री राजेश कमार/लज्जावती मै. एस.लाल टेडर्स को उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में वर्णित राशि रु. 1124353.76 (रुपये ग्यारह लाख चौबीस हजार तीन सौ तिडेपन एवं पैसे छियत्तर मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे. अतः एतदहारा ऋणधारक तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि आज, 17 मार्च, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का

व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1124353.76 (रुपये ग्यारह लाख चौबीस हजार तीन सौ तिडेपन एवं पैसे छियत्तर मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण

पंजीकरण उप जिला फरीदाबाद तथा जिला फरीदाबाद में लज्जावती के स्वामित्व में फ्लैट नं./प्लॉट नं. एसवाई नं./ सिटी अथवा टाउन सर्वे नं./खसरा नं. 85. किल्ला नं. 3(8-0) वार्ड नं. 35. गली नं. 2. गोवर्धन कॉलोनी/सुभाष कॉलोनी मौजा बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी ः उत्तरः रास्ता, दक्षिणः अन्य मकान, पूर्वः एच नं. 320, पश्चिमः एच नं. 322

तिथि : 23.03.2022, स्थान : फरीदाबा

Geartech

स्थान : नोएडा

दिनांक : 22 मार्च, 2022

आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 15वीं मंजिल, इरोस कॉरपोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 (इंडिया) दरभाष नं.: 011-66155129 | फैक्स नंबर: 0120-4588513 र्डमेल: Investor@raclgeartech.com वेबसाइट: www.raclgeartech.com सीआईएन: L34300DL1983PLC016136

शेयर प्रमाणपत्रों के गुम होने की सूचना

एतद्वारा सुचित किया जाता है की कम्पनी द्वारा जारी निम्न शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के कथित रूप से गुम/ स्थानच्युत हो जाने की सूचना मिली है तथा उसके पंजीकृत धारक ने डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कम्पनी के पास आवेदन किया है

फालिया	शयरधारक	शेयर प्रमाणपत्र(त्री)	विशि	शयरी की	
नं.	का नाम	संख्या	से	तक	संख्या
0005147	बसंत कुमार खंडेलवाल	00009175	3516508	3516607	100
एतद्वारा आग	र जनता को किस्	ो भी रूप में उपरोक्त शे	यर प्रमाणपत्रों व	ही खरीद अथवा	व्यवसाय के

प्रति सतर्क किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयर प्रमाणपत्रों के संबंध में कम्पनी के प्रति कोई दावा हो, वे इस सुचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर ऊपर दिए गए पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के पास ऐसे दावे दाखिल करें जिसके बाद किसी प्रकार के दावे पर विचार नेहीं किया जायेगा तथा कम्पनी डप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जरी करेगी।

> आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड के लिए शगुन बाजपेयी कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

RAUNAO

GEARS

एन्कोर एसेट रीकन्ट्रक्सन कम्पनी पाईवेट लिमिटेड earc 5वां तल, प्लॉट नं. 137, सेक्टर-44, गुड़गांव-122002, फोन: 0214-4527200

परिशिष्ट IV [नियम-8 (1)]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम, 2002) की धारा 5 के अंतर्गत इंडिया इन्फोलाइन फाइनांस लि. (आई आईएफएल) द्वारा श्रजित श्रीमती मध खन्ना एवं श्री राजेन्द्र खन्ना की वित्तीय परिसम्पत्तियों में एन्कोर एसेट रीकन्स्टक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड (एन्कोर एआरसी) न इंडिया इन्फोलाइन फाइनांस लि. (आईआईएफएल) का सभी अधिकार, टाइटल एवं हित का एसाइन्मेन्ट अनुबंध तिथि 28.06.2018 के माध्यम से अधिग्रहण कर लिया है। तथा जैसा कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना तिथि 20.10.2021 जारी कर ऋणधारकों 1) श्रीमती मधु खन्ना, 2) श्री राजेन्द्र खन्ना को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि 30.04.2021 को रु. 45,29,095/- (रुपये पैंतालिस लाख उन्नतीस हजार पंचानवे मात्र) तथा 01.05.2021 से भुगतान की तिथि तक आगे का ब्याज एवं लागत वापस लौटाने का निर्देश दिया था

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा एन्कोर एसेट रीकन्सट्टक्श कम्पनी प्रा. लि. के प्राधिकत अधिकारी द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सचित किया जात है कि आज, 16.03.2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों आम जनता को एतदहारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित

सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 45.29.095/ (रु. पैंतालिस लाख उन्नतीस हजार पंचानवे मात्र) के साथ 01.05.2021 से आगे के ब्याज तथा लागतों के लिये एन्कोर एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि. के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

प्लॉट नं. ७, न्यू मोटर मार्केट, कोटा, राजस्थान में ऑप नं. 13, 16, 17, 18 ऑप नं. 13 ऑप नं. 14 की चौहद्दीः उत्तरः शॉप नं. 14, पूर्वः 30 फीट रोड एवं शॉप नं. 11 एवं 12, दक्षिणः शॉप नं. 11 एवं 12 एवं प्लॉट नं. 8, पश्चिमः 5 फीट चौड़ा ख़ुला स्थान।

शॉप नं. 16, 17, 18 की चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 6, पूर्व शॉप नं. 14, दक्षिणः कॉमन पैसेज, पश्चिमः सीढ़ियां (प्राधिकृत अधिकारी) तिथि: 16.03.2022 एन्कोर एसेट्र रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि

जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड

(Ji dil [सीआईएन : L17111UP1974PLC003979]

पंजीकृत कार्यालय : 19 किमी, हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पो.ऑ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश-203408, दूरभाष नं. : 05732- 228057

वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110 070 दूरभाष : (011) 40322100, फैक्स : (011) 40322129 ई-मेल : csjpoly@jindalgroup.com; वेबसाइट : www.jindalpoly.com

कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 12. सेक्टर-बी-1. लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स,

पोस्टल बैलॅट की सचना

एतदुद्वारा सदस्यगणों को सुचित किया जाता है कि पोस्टल बैलॅट सुचना तिथि 16 मार्च, 2022 जो उनके पंजीकृत ईमेल पते पर सभी शेयरधारकों को मेल कर दी गई है, में निर्दिष्ट कुछ विशेष व्यवसायों के निष्पादित करने का प्रस्ताव है। पोस्टल बैलॅट सुचना का प्रेषण 22 मार्च, 2022 को पुरा कर लिया गया

है। प्रस्तावित विशेष व्यवसायों के विवरण इस प्रकार हैं: i) विशेष प्रस्ताव के रूप में स्लम्प बिक्री आधार पर अंडर टैकिंग (प्लास्टिक फिल्म व्यवसाय) की बिक्री ii) साधारण प्रस्ताव के रूप में पट ऑप्शन

iii) विशेष प्रस्ताव के रूप में ऋणों, निवेशों, गारंटीज तथा प्रतिभृतियों की सीमाओं में वृद्धि तथा iv) विशेष प्रस्ताव के रूप में उपचयित अधिशासन अधिकारों

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) सर्क्युलर्स तथा अधिनियम एवं सुचीयन विनियमनों के लागृ होने वार्ल

प्रावधानों के अनुसार उक्त पोस्टल बैलॅट सुचना इलेक्ट्रानिक पद्धति से ऐसे सभी सदस्यों को उनके ई[.] मेल पते पर भेज दी गई जिनके ई-मेल पते कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास दर्ज हैं तथ उक्त पोस्टल बैलॅट सुचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवसायों के लिये सदस्यों की सहमति/असहमित भौतिक पोस्टल बैलॅट प्रपत्रों की जगह कम्पनी द्वारा प्रावधानित रिमोट ई-वोटिंग सविधा के माध्यम से प्राप्त की

ई-वोटिंग सविधा उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (''केफिन टेक'' की सेवाएं प्राप्त की है। सदस्यों के मताधिकार की गणना 18 मार्च 2022 को की गई है जो कट-ऑफ तिथि है। इलेक्ट्रानिक माध्यमों से मतदान बुधवार, 23 मार्च, 2022 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) शुरू होगी तथा गुरुवार, 21 अप्रैल, 2022 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) (दोनों दिवस सहित) में बंद होगी।

सदस्यों से आग्रह है कि वे यह ध्यान रखें कि गुरुवार, 21 अप्रैल, 2022 को 5.00 बजे अप. के बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिन सदस्यों को ई-मेल प्राप्त नहीं हो, वे ईमेल आईडी suresh.d@kfintech.com पर कम्पनी के

रजिस्टार एवं अंतरण एजेन्टस केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (यनिट: जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड) सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाछी बावली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा हैदराबाव 500032 को अथवा ईमेल आईडी cs_jpoly@jindalgroup.com पर कम्पनी के कम्पनी सचिव को लिखें तथा फिर से ई-मेल प्राप्त करें। पोस्टल बैलॅट सूचना कम्पनी की वेबसाईट https://www.jindalpoly.com/download-

reports तथा स्टॉक एक्स्चैंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट www.nseindia.com तथा बीएसई लिमिटेड: www.bseindia.com तथा केफिनटेक की वेबसाईट https://evoting.kfintech.com पर प्रदर्शित की गई है। स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलॅट प्रक्रिया का संचालन करने के लिये 16 मार्च, 2022

को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल ने श्री दीपक ककरेजा (एफसीएस-4140), कार्यर कम्पनी सचिव (सी.पी. नं. 8265) तथा उनकी असमर्थता की स्थिति में श्रीमती मोनिका कोहल (एफसीएस 5480), कार्यरत कम्पनी सचिव (सीपी नं. 4936) दोनों, मै, डीएमके एसोसिएटस कम्पनी सचिव, नई दिल्ली के पार्टनर्स को पर्यवेक्षक नियक्त किया है। पोस्टल बैलॅट परिणामों की घोषणा अथवा अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शनिवार, 23

अप्रैल, 2022 को 5.00 बजे अप. में की जाएगी तथा उसकी सचना स्टॉक एक्सचैंजों को दी जाएगी तथा साथ ही उसे कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् https://www.jindalpoly.com/download-report तथा केफिनटेक की वेबसाईट https://evoting.kfintech.com पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। ई-वोटिंग पर किसी भी प्रकार की पछताछ के लिये सदस्य ई-वोटिंग के लिये के फिनटेक की वेबसाईट अर्थात https://evoting.kfintech.com के "डाउनलोडस" में डॉपडाउन मेन्य के माध्यम उपलब्ध ''हेल्प'' तथा ''एफएक्यू'' खंड/ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें।

ई-वोटिंग से सम्बंधित समस्याएं/प्रश्नों, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिये सम्पर्क का विवरण जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड-ई-मेल : cs_ipoly@jindalgroup.com तथा केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (युनिट: जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड)

ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

बोर्ड के ओदश से जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड के लिये

सुनीता माहेश्वर्र (कम्पनी सचिव

क्रिन् । बक्र सामने जी टी रीड, पलविल (१०१४) हरियाणा NIT Faridabad - 121001, Harvana

कब्जा सूचना [धारा 13 (4)] (अचल सम्पत्ति के लिये) जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 (2002 के अधिनियम 54) (यहां के बाद "अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना तिथि 15.10.2021 जारी कर ऋणधारक श्री विशाल तेवतिया को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि रु. 995000/- (रु. नौ लाख पंचानवे हजार मात्र) वापस लौटाने क निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता के सचित किया जाता है कि आज. 17 मार्च. 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभति हित प्रवर्त्तन नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित

सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 995000/- (रु. नै लाख पंचानवे हजार मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण

पंजीकरण उप जिला पलवल तथा जिला पलवल के भीतर सि. नं./सिटी अथवा टाउन सर्वे नं./खसरा नं. तह. पवल में फ्लैट नं./प्लॉट नं.- म्युटेशन नं. 2925, 17/17 वां शेयर, खेवत/खतोनी नं. 115/120, रेक्ट नं. 5 किल्ला नं. 17 (3-11), स्वामी का शेयर 17 मरला, फाजलपुर, नया गांव, पलवल में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः गली, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः रोड, पश्चिमः खाली प्लॉट।

तिथिः 23.03.2022 स्थानः फरीदाबाद

कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड CORDS

पंजीकृत कार्यालयः 94, प्रथम तल, शंभू दयाल बाग मार्ग, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-III के पास. पुराना ईश्वर नगर, नई दिल्ली-20, दुरभाषः 011-40551200 *फैक्स नंबर 011-40551280/81 *वेबसाइटः www.cordscable.com, ई-मेलः ccil@cordscable.com *CIN L74999DL1991PLC046092

सेबी (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 और कंपनी के आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए संहिता के प्रावधानों के अनसार, कंपनी की प्रतिभतियों में लेनदेन के लिए व्यापार खिडकी, निदेशकों, नामित कर्मचारियों, आंतरिकों और उनके निकटतम रिश्तेदारों के लिए 1 अप्रैल, 2022, शुक्रवार से 31 मार्च, 2022 को समाप्त चौथी तिमाही / वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी। तदनुसार, सभी नामित व्यक्ति, निदेशक, प्रवर्तक, सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों, कंपनी के कर्मचारी, उनके संबंधित निकट संबंधी, कंपनी के साथ संविदात्मक और प्रत्ययी संबंध रखने वाले व्यक्ति सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं. लेखापरीक्षक, लेखा फर्म, काननी फर्म, विश्लेषक, कंपनी की सहायता या सलाह देने वाले सलाहकार आदि व्यापार खिडकी बंद होने की अवधि के दौरान कंपनी की प्रतिभृतियों में लेनदेन/व्यापार के लिए किसी भी लेनदेन में शामिल नहीं होंगे।

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 22 मार्च, 2022

गरिमा पंत कंपनी सचिव

दी कांगडा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 6 सी-29, कम्युनिटी सेन्टर, परंवा रोड़, जनक पुरी, नई दिल्ली-110058 फोन: 011.25611041, 25611042, 25611043, 25611044 ई-मेल : leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com, वेबसाईट : www.kangrabank.com संदर्भ संख्या केसीबी/एचओ/सीआरडी/

(नियम ८(1) देखें) कब्जा-सूचना (अचल संपत्ति हेतू) अधोहस्ताक्षरी "द कांगडा को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड", प्रधान कार्यालय, सी–29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड

परिशिष्ट IV

जनकपुरी, नई दिल्ली– 110058, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1916, चूनामंडी,पहाड्गंज, नई दिल्ली 110055 के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, २००२, (२००२ के ५४) और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम [3] के साथ पठित धार 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक ने दिनांक 21–12–2021 को एक मांग नोटिस जार किया था, जिसमें ऋणी श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महिपाल सिंह, निवासीः के–1 एक्सटेंशन, 88, 89, मोहर गार्डन, गली नंबर 6, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59 और बन्धकदाता एवं जमानतदार श्रीमती नीत सिंह, पत्नी श्र सतीश कुमार, निवासीः के—1 एक्सटेंशन, 88, 89, मोहन गार्डन, गली नंबर 6, उत्तम नगर, नई दिल्ली—59 क नोटिस में उल्लिखित राशि 23,88,965/— (रुपये तेईस लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ पैंसठ रुपये मात्र) औ इसके साथ इस ऋण खाते पर लागू होने वाले ब्याज, दंडात्मक ब्याज और नोटिस की तारीख से भूगतान क् तारीख तक, समय–समय पर लागू अन्य शूल्कों का भुगतान इस नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 60 दिने के भीतर भगतान करने को कहा गया था। उपर्युक्त ऋणी, बन्धकदाता और जमानतदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल होने पर, ऋणी

प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13 की उप—धारा (4) और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियमन [8] के साथ पठित प्रतिभृति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए दिनांव 19 मार्च, 2022 को नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा प्राप्त कर लिया है। ऋणी, बन्धकदाता और जमानतदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्दवारा सावधान किया जात है कि गिरवी रखी गई संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तर का लेन—देन करने पर ''द कांगडा को—ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड'' द्वारा रु. 23.88.965/- की राशि के सा उस पर अतिरिक्त ब्याज, दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्क जो समय–समय पर इस ऋण खाते पर लागू हो

बन्धकदाता, जमानतदार और आम जनता को एतद्दवारा सचित किया जाता है कि बैंक ने वित्तीय संपत्तियों

ऋणी, बन्धकदाता और जमानतदार का ध्यान नीचे उल्लिखित गिरवी रखी गई संपत्ति/प्रतिभूत संपत्ति के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तः अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया जाता है।

हैं, नोटिस की तारीख से वसूली की तारीख तक, बैंक द्वारा किए गए सभी खर्चों के साथ उक्त राशि की वस्त

संपत्ति का विवरण ग्राम हस्तसाल, दिल्ली, कॉलोनी को ब्लॉक के–1 एक्सटेंशन मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059 के रूप में जाना

संपत्ति 45 वर्ग जाता है, के क्षेत्र में स्थित खसरा नं. 64/25 के बाहर, संपत्ति सं गज क्षेत्र में 88 एवं 89, परिमाप 45 वर्ग गज क्षेत्र पर निर्मित संपत्ति के सभी एक निर्मित हिस्से और भाग, इसके सभी छत टेरेस का अधिकार। उक्त संपत्ति उप पंजीयक II, बसई दारापुर, दिल्ली के पंजीकरण के संपत्ति है। अंतर्गत आती है।

पूर्व : संपत्ति का भाग। पश्चिम: अन्य संपत्ति उत्तर : 15 फीट चौडी सडक । दिनांक : 19-03-2022

उक्त संपत्ति निम्न चौहद्दी के अंतर्गत है:--

दी कांगडा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. प्रधान कार्यालय, सी-29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी,फोन नं.8383010621

प्रपत्र ए सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली. 2016 के विनियम 6 के अधीन] यूएम ऑटोकॉम्प प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ संबंधित विवरण

यएम ऑटोकॉम्प प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट देनदार का नाम कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि 22 अगस्त 2016 प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट रजिस्टार ऑफ कम्पनीज-देनदार निगमित / पंजीकृत है एनसीटी ऑफ दिल्ली और हरियाणा कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान U35999DL2016PTC304695 संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या

कार्पोरेट देनदार के पंजीकत कार्यालय तथा पंजीकृत कार्यालयः 806 देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता कार्पीरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध आदेश तिथि: 17 फरवरी 2022 दिनांक : 21 मार्च 2022 को प्राप्त हुआ अक्षमता आरंभन तिथि 16 अगस्त 2022 ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में पंकज कुमार सिंघल कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00532/2017-2018/11561 का नाम और रजिस्टेशन नम्बर

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ए-233, भूतल, बुन्कर कॉलोनी, ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है अशोक विहार, फेंज-IV, नई दिल्ली-110052 इमेल: aprassociatesllp@gmail.com डब्ल्यूपी–509, दूसरी मंजिल, वजीरपुर गांव, अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल

ईमेल : cirp.umautocomp@gmail.com 04 अप्रै ल 2022 दावा प्रस्तुत करने हेत् अंतिम तिथि अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उपलब्ध सीमित जानकारी के आधार पर. 4 उप-धारा (६क) के क्लॉज (ख) के तहत लेनदारों का ऐसा कोई वर्ग नहीं है।

अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकत उपलब्ध सीमित जानकारी के आधार पर, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेत लेनदारों का ऐसा कोई वर्ग नहीं है।

चिहिनत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम) . (क) संबंधित प्रपन्न उपलब्ध है (क) वेबलिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

(ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर (ख)भोतिक पताः डब्ल्यूपी-509, दूसरी मंजिल, वजीरपुर गांव, अशोक विहार, फेज—।, दिल्ली—110052 एतदद्वारा सुचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 17.02.2022 (आदेश 21.03.2022 को प्राप्त हुआ) को यूएम ऑटोकॉम्प प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंग करने का आदेश दिया है।

यएम ऑटोकॉम्प प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतदद्वारा अपने दावों का प्रमाण **04 अप्रैल 2022** को अथवा हुँ अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है । र्वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साघनों द्वारा प्रस्तृत करना होगा । अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं ।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविश्टि सं. 13 के समक्ष सुचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपत्र सीए [श्रेणी का उल्लेख] (सीमित जानकारी के आधार पर लेनदारों का ऐसा कोई वर्ग नहीं

दावों को भारतीय दिवाला और अक्षमता बोर्ड के विनियम, 2018 (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया संकल्प प्रक्रिया) के अध्याय III के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है। दावे के समर्थन में दस्तावेजी सबत के साथ दावे निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रपत्रों में प्रस्तृत किया जाना है :--**फॉर्म बी** : कर्मकार और कर्मचारियों को छोडकर परिचालक लेनदारों के दावों के लिए फॉर्म सी : वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए

फॉर्म सीए : एक श्रेणी में वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए फॉर्म डी: अमिको और कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए **फार्म डें** : श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकत प्रतिनिधि द्वारा दावों के लिए

फॉर्म एफ : (वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के अलावा) लेनदारों द्वारा दावों के लिए उपर्युक्त प्रपन्न वेबसाइट www.lbbi.gov.in (भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड) से डाउनलोड किए जा

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-पंकज कुमार सिंघल

अशोक विहार, फेज-। दिल्ली-110052

अंतरिम समाघान प्रोफेशनल, यूएम ऑटोकॉम्प प्राइवेट लिमिटेड दिनांक : 22 03 2022 पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00532/2017-2018/11561 ईमेलः cirp.umautocomp@gmail.com स्थान : दिल्ली

स्थानः चंडीगढ़ तिथिः 22.3.2022

कम्पनी सचिव FCS 7466

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 22 मार्च. 2022

एफसीएस : 5324

www.readwhere.com

district_notice&district=Ludhiana दीपक स्पिनर्स लिमिटेड CIN L17111HP1982PLC016465 पंजी. कार्यालयः 121 इंड एरिया, बड्डी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन,

2020, 15 जून, 2020, 28 सितम्बर, 2020, 31 दिसम्बर, 2020, 23 जून, 2021 तथा 8 दिसम्बर, 2021 के अनुपालन में पूर्व में निर्णित पोस्टल बैलॅट के माध्यम से, की जगह साधारण आम सभा (ईजीएम) में कम्पनी के शेयरधारकों की स्वीकृत के लिये पुस्तावित प्रस्ताव को केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया द्वारा ही पारित किया जायेगा। रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 17 अप्रैल, 2022 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू होगी तथा मगलवार, 19 अप्रैल, 2022 को 5.00

लिये अधिकृत होंगे। ईजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति से केवल ऐसे व्यक्तियों को ही भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास दर्ज हैं तथा वह कम्पनी की वेबसाईट www.dsl-india.com तथा स्टॉक एक्सचैंज, www.bseindia.com पर भी

बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी। जो व्यक्ति कट-

ऑफ तिथि, बुधवार, 13 अप्रैल, 2022 को कम्पनी के

शेयरधारक हैं. वे ही ई-वोटिंग सविधा प्राप्त करने के

पंजीकृत नहीं हैं, से अनुरोध है कि लिंकhttp://mdpl.in/form/email-update पर जाकर रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट के पास उसे दीपक स्पिनर्स लिमिटेड के लिये

उपलब्ध होगा। ऐसे योग्य व्यक्तियों जिनके ईमेल पते कम्पनी में

उपलब्ध कराऐं। पुनीता अरोड़ा